

DON BOSCO SCHOOL AND JUNIOR COLLEGE, NAIGAON

**SYLLABUS PLAN FOR THE MONTH OF DECEMBER
CLASS – V (2023 – 2024)**

Sr.No	SUBJECT	CHAPTER NO.	TOPICS / CHAPTER HEADINGS
1	ENGLISH	21 22 19 17 20	<u>Prose -</u> The journey to the great oz A book review Be a good host and guest <u>Poetry</u> On the water Only one mother <u>GRAMMAR</u> Pronouns Adjective Parts of speech(revision) Adverb <u>COMPOSITION</u> Letter writing (informal)
2	HINDI	१,३ २	पाठ - गाँव और शहर भाई-भाई का प्रेम कविता – जीवन व्याकरण – अनुस्वार / गिनती २६ से ५० तक / लिंग / वचन / शब्द युग्म रचना – मेरा परिवार , मेरा गाँव वाचन – रोबोट , जुड़े हम , मुझे पाहचानो - मुझे जानो

3	MARATHI	<p>गद्य - १६. १७. १९.</p> <p>पद्य - १५.</p> <p>व्याकरण- उपयोजित लेखन -</p>	<p>मी नदी बोलते आमची सहल अनुभव - २</p> <p>नदीचे गाणे [कविता] विशेषण, अंक - २६ ते ३५</p> <p>निबंध - माझी आई</p>
4	MATHS	<p>10. 11.</p>	<p>Measuring Time Problems on Measurement</p>
5	EVS 1	<p>14 16</p>	<p>Transport Water</p>
6	EVS 2	<p>6 7</p>	<p>Stone Age: Stone Tools From shelters to village settlements</p>
7	DRAWING	<p>1 2</p>	<p>Memory drawing Activity no. 1</p>
8	COMPUTER	<p>6 7</p>	<p>Formatting Slides in PowerPoint Enhancing a Presentation</p>
9	P. T.		<ul style="list-style-type: none"> ● Attention and Stand At Ease ● EXERCISE 1&2 ● MARCH PAST

10	KARATE		<ul style="list-style-type: none"> ● Three types of jumps ● Upper body twist ● Lower back stretch dynamic ● Lower back stretch ● Shoulder exercise ● Neck exercise ● Arms exercise ● Wrist rotation exercise
11	VALUE EDUCATION	8. 9. 10.	God Exists Forgiving Father The Rabbits tail

DON BOSCO SCHOOL AND JUNIOR COLLEGE, NAIGAON

**SYLLABUS PLAN FOR THE MONTH OF DECEMBER
FOR CLASS – VI (2023 – 2024)**

Sr. No.	SUBJECT	CHAPTER NO.	TOPICS / CHAPTER HEADING
1	ENGLISH		<p>Prose</p> <p>3.2 Seven Sisters</p> <p>3.3 Stone Soup</p> <p>3.4 Sushruta</p> <p>3.6 The Merchant of Venice (reading)</p> <p>3.7 At the Science Fair (Activity)</p> <p>Poetry</p> <p>3.1 It Can Be Done</p> <p>3.5 The Donkey</p> <p>Grammar</p> <p>Kinds of Adverbs (Time, place, manner, degree)</p> <p>Kinds of Sentences (Declarative, Imperative, Interrogative, Exclamatory)</p> <p>Parts of Speech</p> <p>Composition:</p> <p>Comprehension (Prose Unseen)</p>

2	HINDI		<p>पाठ :- स्वास्थ्य संपदा</p> <p>कविता :- तूफानों से क्या डरना</p> <p>रचना :- पत्र लेखन, पहेलियाँ क्या तुम जानते हो ?</p> <p>व्याकरण :-उपसर्ग प्रत्यय , सर्वनाम के भेद , गिनती (७६ - १००)</p>
3	MARATHI	<p>गद्य - १०. ११. १६. पद्य - १२.</p> <p>व्याकरण- उपयोजित लेखन -</p>	<p>बाबांच पत्र [पाठ] मिन्चा जलप्रवास मुक्या प्राण्यांची कैफियत</p> <p>चंद्रावरची शाळा [कविता]</p> <p>काळ व काळाचे प्रकार,समानार्थी, विरुद्धार्थी[Revision]</p> <p>निबंध - माझे बाबा, कथालेखन</p>
4	MATHS	<p>11.</p> <p>12.</p>	<p>Ratio - Proportion</p> <p>Percentage</p>
5	SCIENCE	<p>7.</p> <p>8.</p>	<p>Nutrition and diet</p> <p>Our Skeletal System and the Skin</p>

6	HISTORY	9 3	History: Ancient Kingdoms of the South Civics: Rural Local Government Bodies
7	GEOGRAPHY	8	Natural Resources
8	DRAWING	1 2	Memory drawing Activity no. 1
9	COMPUTER	7 8	Introduction to Excel 2016 More About Excel
10	P.T.		Attention and Stand At Ease Exercises 1to 5 March past
11	KARATE		<ul style="list-style-type: none"> ● Three types of jumps ● Upper body twist ● Lower back stretch dynamic ● Lower back stretch ● Shoulder exercise ● Neck exercise ● Arms exercise ● Wrist rotation exercise
11	VALUE EDUCATION	7 8	Using your time The Iron chest

DON BOSCO SCHOOL AND JUNIOR COLLEGE, NAIGAON

**SYLLABUS PLAN FOR THE MONTH OF DECEMBER
FOR CLASS – VII (2023 – 2024)**

Sr. No.	SUBJECT	CHAPTER NO.	TOPICS / CHAPTER HEADING
1	ENGLISH	3.2 3.3 3.5 3.6 3.1	<p><u>Prose -</u> Compere a Program A Crow in the House News Analysis Think Before you Speak</p> <p>Poem</p> <p>Tartary</p> <p><u>GRAMMAR</u></p> <p>Identify the types of Sentence Direct - Indirect Subject and Object Complement (pg.67) Preposition (revision) and introduction of words like beside, besides, between, among etc.</p> <p>Composition</p> <p>Report Writing(Newspaper)</p> <p>Formal Letter (Class Teacher/Principal-request)</p>
2	HINDI		<p>पाठ: दो लघु कथाएं</p> <p>कविता: बेटी युग</p> <p>व्याकरण: काल तथा उसके प्रकार , अर्थ के आधार पर वाक्य भेद</p> <p>रचना : पत्र लेखन (औपचारिक पत्र)</p>

			निबंध : मेरा भारत महान
3	MARATHI		<p>पाठ ९. वाचनाचे वेड</p> <p>कविता ८. शब्दांचे घर</p> <p>व्याकरण - उभयान्वयी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय, गटात न बसणारा शब्द, विरामचिन्हे, लेखननियमानुसार लेखन</p> <p>निबंध - वाचाल तर वाचाल</p>
4	MATHS	<p>11.</p> <p>10.</p>	<p>Circle</p> <p>Banks and Simple Interest</p>
a	SCIENCE	<p>11</p> <p>12</p>	<p>Cell Structure and Micro Organisms</p> <p>The Muscular System and Digestive System in Human Beings</p>
6	HISTORY	<p>8</p> <p>4</p>	<p>History: An Ideal Ruler</p> <p>Civics: Fundamental Rights - Part I</p>
7	GEOGRAPHY	<p>7</p> <p>8</p>	<p>Soils</p> <p>How Seasons Occur - Part 2</p>
8	DRAWING	<p>1</p> <p>2</p>	<p>Memory Drawing</p> <p>Activity no.1</p>
9	COMPUTER	<p>7</p> <p>8</p>	<p>Introduction to Python</p> <p>Operators in Python</p>

10	P.T.		<ul style="list-style-type: none"> ● Attention and Stand At Ease ● Exercises 1to 5 ● March past
11	KARATE		<ul style="list-style-type: none"> ● Three types of jumps ● Upper body twist ● Lower back stretch dynamic ● Lower back stretch ● Shoulder exercise ● Stomach level kick ● Neck exercise ● Arms exercise ● Wrist rotation exercise
12	V.ED	9 10 11	The golden flowers The wise saint Changing times